



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 13, 2003/माघ 24, 1924

No. 139]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 13, 2003/MAGHA 24, 1924

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2003

का.आ. 162(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1204(अ) तारीख 16 नवम्बर, 2002, द्वारा खुर्दा जिले में 319/632 कि०मी० से 328/800 कि०मी० तक (गंजाम-सुनाखला खंड) के भूखंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 को चार लेन का बनाने के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण, में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार,, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाती है ;

और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर सभी विल्लंगमों से मुक्त आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी।

अनुसूची

जिला— खुर्दा

तहसील—बाणपुर

क्र. स.	गाँव का नाम	खाता सं०	प्लॉट सं०	भूमि की किस्म	क्षेत्रफल एकड़ में	भू-स्वामी एवम हितवद्ध व्यक्तियों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	रांचोडा	5	242	निजी	0.020	अपसरा सेनापति पत्नी सनातन सेनापति, रणसिंह प्रसाद
		32	238	निजी	0.280	गति राउत पि. भुज राउत, गोलख राउत, शत्रुघ्न राउत पि. निधि राउत, भशी राउत पत्नी निधि राउत, बेलपड़ा
		41	236	निजी	0.020	गोलख लेंका, पि. हूरुसी लेंका, जलधर लेंका, बिसु लेंका, कृष्ण लेंका, पि. भागवत लेंका, बंशी लेंका, जुजेस्टी लेंका, घन लेंका, किशोर लेंका पि. बालक लेंका, धोबा लेंका, मेघा लेंका, फकीर लेंका, जोगी लेंका, पि. उच्च लेंका, बूढी लेंका, पत्नी उच्च लेंका, बेलपड़ा
		64	214	निजी	0.060	नारंग लेंका पि. बान्छा निधि लेंका, बेलपड़ा
			237	निजी	0.155	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		73	213	निजी	0.010	पन्चू घटवाली, पि. कालू घटवाली, रंक घटवाली, सन्त घटवाली, पि. वन घटवाली, रणसिंह प्रसाद,
			215	निजी	0.005	
		91	211	निजी	0.080	ब्रह्मर वर रणसिंह, पि. श्यामघन रणसिंह, उमा रणसिंह, राम रणसिंह, पि. चन्द्रशेखर रणसिंह, सुशीला रणसिंह, पत्नी चन्द्रशेखर रणसिंह, रणसिंह प्रसाद
		123	241	निजी	0.640	सनातन सेनापति, पि. बरजू सेनापति, रणसिंह प्रसाद
		138/7	212	निजी	0.536	हर रणसिंह, पत्नी गुरवारी रणसिंह, बेलपडा
		141	239	सरकारी	0.140	उड़ीसा सरकार
			240	सरकारी	0.260	
2.	नारणडिही	5	247	निजी	0.015	आशामणि प्रधान पत्नी दिव्यसिंह प्रधान, बन्ध मुन्डाइ,
		12	240	निजी	0.300	कुबेर कुमार पाड़ी, पि. गोदावरी पाड़ी, गोपीनाथ पुर
			237	निजी	0.060	
			241	निजी	0.035	
			263	निजी	0.035	
			277	निजी	0.280	
		17	276	निजी	0.368	कृष्ण चरण राउतरा, बिश्वनाथ राउतरा, पि. बृन्दावन राउतरा, बन्ध मुन्डाइ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		42	259	निजी	0.070	दासरथि पटनाइक, पि. चिन्तामणि पटनाइक, पुरुशोतम पुर
		43	275	निजी	0.025	दासरथि पन्डा, पि. ब्रह्मचारी पन्डा, अलाईडीह पटना
		73	242	निजी	0.030	विनोद बिहारी पटनाइक पि. लिंगराज पटनाइक, दधीमाछगड़िया
			243	निजी	0.080	
			246	निजी	0.067	
			280	निजी	0.065	
			283	निजी	0.030	
			284	निजी	0.050	
		77	286/304	निजी	0.009	वैद्यनाथ पन्डा, पि. पाणु पन्डा, नन्द पुर, शामिल, कुम्भाकरडिह
			285	निजी	0.250	
		82	240/301	निजी	0.020	भानुमति पलाई, पत्नी सुभाशचन्द्र पलाई, अयतपुर
		91	252	निजी	0.385	रंकनाथ प्रधान, पि. कैवल्य प्रधान अलाईडीह पटना
		94	253	निजी	0.005	रघुनाथ राय, भरत राय, लक्ष्मण राय, पि. चैतन्य राय, बालिगडइया
		95	239	निजी	0.339	रजनी पाढी, पत्नी सुरेन्द्र पाढी, विद्याधर पुर (चिलकारोड)
		132	248	निजी	0.690	आशामणि प्रधान, पत्नी दिव्यसिंह प्रधान, बन्धमुन्डाइ
		133	249	निजी	0.600	दासरथि पटनाइक, पि. चिन्तामणि पटनाइक, पुरुशोतमपुर पटना
			251	निजी	0.074	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	.	134	245	निजी	0.424	फकीर बराल, पूर्णचन्द्र बराल, पि. शतुर बराल, पदनपुर
		136	278	निजी	0.480	बिनोद बिहारी पटनाइक, पि.
			281	निजी	0.230	लिंगराज पटनाइक, दधीमाछगाडिया
			282	निजी	0.070	
		130/62	279	निजी	0.073	बिश्वनाथ प्रधान, पि. सनातन प्रधान, तारुलता रणसिंह, पत्नी मिनकेतन सामन्तरा, पदनपुर

[फ. सं. भारतप्र/11014/3डी/2003/ओआर-VII/तक./मप्र (सीके-II)]

अशोक जोशी, सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2003

S.O. 162(E).—Whereas by the notification of the Government of India in Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.1204 (E) dated 16th November 2002, issued under sub section (1) of section 3 A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has declared its intention to acquire the lands specified in the Schedule appended to that notification for the public purpose of widening of National Highways No. 5 in the stretch from Km. 319/632 to Km. 328/800 (Ganjam to Sunakhala Section) in the District of Khurda ;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto are to be acquired for the aforesaid purpose,

And, further in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on the publication of this notification in the Official Gazette, the said lands shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

DISTRICT: KHURDA

TAHASIL - BANPUR

Sl. No.	Name of Village	Khata	Plot No.	Type of Land	Area (In Acres)	Name of the Land Owners or interested person
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Ranchora	5	242	Private	0.020	Apasara Senapati, W/o Sanatan Senapati, At:Ranasinhaprasad
		32	238	Private	0.280	Gati Rout S/o Bhuja Rout, Golakha Rout, Satrughna Rout S/o Nidhi Rout, Bhashi Rout W/o Nidhi Rout, At: Belapada
		41	236	Private	0.020	Golakha Lenka, S/o Hrusi Lenka, Jaladhar Lenka, Bisu Lenka, Krushna Lenka S/o Bhagabat Lenka, Banshi Lenka, Jujesti Lenka Ghana Lenka, Kishor Lenka S/o Balaka Lenka Dhoba Lenka, Megha Lenka, Fakir Lenka, Jogi Lenka, S/o Uchhab Lenka, Budhi Lenka W/o Uchhab Lenka At:Belapada
		64	214	Private	0.060	Narana Lenka S/o Bancha Nidhi Lenka, At: Belapada
			237	Private	0.155	
		73	213	Private	0.010	Panchu Ghatuali, S/o Kalu Ghatuali, Ranka Ghatuali, Santha Ghatuali, S/o Bana Ghatuali At:Ranasinhaprasad
			215	Private	0.005	
		91	211	Private	0.080	Bhramarbara Ranasingha S/o Shyamaghana Ranasingha, Uma Ranasingha, Rama Ranasingha, S/o Chandra Sekhar Ranasingha, Susila Ranasingha W/o Chandra Sekhar Ranasingha At:Ranasinhaprasad
		123	241	Private	0.640	Sanatan Senapati, S/o Baraju Senapati, At: Ranasinhaprasad

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		138/7	212	Private	0.536	Hara Ranasingha W/o Gurubari Ranasingha At:Belapada
		141	239	Government	0.140	Government of Orissa
			240	Government	0.260	
2.	Naranadihi	5	247	Private	0.015	Ashamani Pradhan W/o Dibyasingha Pradhan At:Bandhamundai
		12	240	Private	0.300	Kuber Kumar Padhi, S/o Godabari Padhi At:Gopinathpur
			237	Private	0.060	
			241	Private	0.035	
			263	Private	0.035	
			277	Private	0.280	
		17	276	Private	0.368	Krushna charan Routara, Biswanath Routara, S/o Brundaban Routara At:Bandhamundai
		42	259	Private	0.070	Dasarathi Pattanaik, S/o Chintamani Pattanaik, At:Purushottampurpatna
		43	275	Private	0.025	Dasarathi Panda S/o Brahmachari Panda, At :Alaidihapatna
		73	242	Private	0.030	Binod Bihari Pattanaik, S/o Lingaraj Pattanaik At:Dadhimachagadia
			243	Private	0.080	
			246	Private	0.067	
			280	Private	0.065	
			283	Private	0.030	
			284	Private	0.050	
		77	286/304	Private	0.009	Baidyanath Panda S/o Panu Panda At:Nandapur Samil Kumbhakardiha
			285	Private	0.250	
		82	240/301	Private	0.020	Bhanumati Palai W/o Subash ch. Palai At:Ayatapur
		91	252	Private	0.385	Rankanath Pradhan, S/o Kaibalya Pradhan At:Alaidihapatna

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		94	253	Private	0.005	Raghunath Ray, Bharat Ray Laxman Ray, S/o Chaitanya Ray At: Baligadia,
		95	239	Private	0.339	Rajani Padhi W/o Surendra Padhi At: Bidyadharpur (Chilikaroad)
		132	248	Private	0.690	Ashamani Pradhan, W/o Dibyasingha Pradhan At: Bandhamundai
		133	249	Private	0.600	Dasarathi Pattanaik, S/o Chintamani Pattanaik
			251	Private	0.074	At: Purushottampurpatna
		134	245	Private	0.424	Fakir Barala, Purnachandra Barala S/o Satara Barala At: Padanpur
		136	278	Private	0.480	Binod Bihari Pattanaik, S/o Lingaraj Pattanaik At: Dadhimachagadia
			281	Private	0.230	
			282	Private	0.070	
		130/62	279	Private	0.073	Biswanath Pradhan, S/o Samatan Pradhan, Tarulata Ranasingha W/o Minaketan Samantray At: Padanpur

[F. No. NHAI/11014/3D/2003/OR-VII/Tech./GM (CK-II)]

ASHOKE JOSHI, Secy.